



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2012/अग्रहायण 14, 1934

No. 265]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2012/AGRAHAYANA 14, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

( भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

फा. सं. 1-12/एससीआई. पैनल/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2012.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रारूप विनियम प्रकाशित करता है; और यह नोटिस देता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, इस अधिसूचना वाले राजपत्र के प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

अपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे।

आपत्तियों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी भी व्यक्ति से पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किए जाएं, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप नियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष, और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 में, प्रति जीवाणु और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय तत्वों से संबंधित उप-विनियम 2.3.2 में, पैराग्राफ (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित साधन विनियोग द्वारा अवधारित किए जाने पर परिमाणन की सीमा के आधार पर शहद में स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रतिजीवाणुओं की सीमा, स्तंभ (3) में विहित सीमा से अधिक नहीं होगी :—

क्रम संख्या	प्रतिजीवाणु का नाम	(परिमाणन की सीमा) (पीपीबी)	उपयोग किया गया उपकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्लोराफेनिकोल	0.3	एलसी-एमएस/एमएस
2.	नाइट्रोफुरान्स	0.5	एलसी-एमएस/एमएस

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	सल्फोनामाइड्स	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
4.	स्ट्रुप्टोमाइसिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
5.	टेट्रासाइक्लिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
क.	ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
ख.	क्लोरेटेट्रासाइक्लिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
6.	एंपीसिलीन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
7.	एनरोफ्लोक्सासिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
8.	सिपरोफ्लोक्सासिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
9.	एरिथ्रोमाइसिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस
10.	टाइलोसिन	5.0	एलसी-एमएस/एमएस”

एस. एन. मोहंती, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[ विज्ञापन III/4/187-ओ/12/असा. ]

पाद टिप्पण :—मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, तारीख 1 अगस्त, 2011 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2012

**F. No. 1-12/Sci. Panel/Notification/FSSAI/2012.**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby publishes for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations, before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

**Draft Regulations**

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulations 2.3, in sub-regulation 2.3.2 relating to Antibiotic and other pharmacologically active substances, after paragraph (2) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“(3) The limit of antibiotics mentioned in column (2), in Honey on the basis of Limit of Quantification, shall not exceed the limit prescribed in column (3) when determined by the instrumentation mentioned in column (4) of the Table given below :—

Sl. No.	Name of Antibiotics	(Limit of Quantification) (ppb)	Instrument used
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chloramphenicol	0.3	LC-MS/MS
2.	Nitrofurans	0.5	LC-MS/MS
3.	Sulphonamides	5.0	LC-MS/MS
4.	Streptomycin	5.0	LC-MS/MS
5.	Tetracycline	5.0	LC-MS/MS
a.	Oxytetracycline	5.0	LC-MS/MS
b.	Chlortetracycline	5.0	LC-MS/MS
6.	Ampicillin	5.0	LC-MS/MS
7.	Enrofloxacin	5.0	LC-MS/MS
8.	Ciprofloxacin	5.0	LC-MS/MS
9.	Erythromycin	5.0	LC-MS/MS
10.	Tylosin	5.0	LC-MS/MS"

S. N. MOHANTY, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/187-O/12/Exty.]

**Foot Note :—**The principle regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated 1st August, 2011 *vide* notification No. 2-15015/30/2010, dated 1st August, 2011.